



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 478]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 1983/अग्राहायण 29, 1905

No. 478] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 1983/AGRAHAYANA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

सीमा सड़क विकास बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1983

सा.का.नि. 902(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सड़क विकास बोर्ड समूह 'क' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1981 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क विकास बोर्ड समूह "क" और समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1983 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा सड़क विकास बोर्ड समूह "क" और समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1981 में :—

(1) *

(2) अनुसूची में ;

(क) अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) से संबंधित मद 1 के सामने, —

*हिन्दी पाठ में यह संशोधन आवश्यक नहीं है ।

(1) स्तंभ 3 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न-लिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसूचिवीय ।" ;

(2) स्तंभ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न-लिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :—सीमा सड़क मंडल के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (1) जो अधीक्षण इंजीनियरी या समतुल्य पंक्ति के पद धारण किए हुए हैं, या (2) कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य पंक्ति के पद धारण किए हुए हैं, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ; और

(ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से सिविल इंजीनियरी या समतुल्य में उपाधि है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।"

(ग) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) से संबंधित मद 2 के सामने—

(1) स्तंभ 3 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न-लिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसूचिवीय ।" ;

(2) स्तंभ 11 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :—सीमा गड़क संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) जो (1) कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य पद के पद धारण किए हुए हैं ; या

(2) सहायक कार्यपालक इंजीनियर की पद के पद धारण किए हुए हैं, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ; (3) सहायक इंजीनियर की पद के पद धारण किए हुए हैं, जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है ; और

(ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरी या समतुल्य में उपाधि है ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।”

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सीमा गड़क विकास बोर्ड की अधिसूचना सं. फा. 1(19)/बीआरडीबी/78, तारीख 15 जून, 1981 के अधीन प्रकाशित किए गए थे ।

[सं. एफ. 1(8)/बी आर डी बी/77]

एल. एस. सक्सेना, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Border Roads Development Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1983

G.S.R. 902(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Border Roads Development Board Gp. 'A' and Gp. 'C' posts Recruitment Rules, 1981 namely :—

1. (i) These rules may be called the Border Roads Development Board Gp. 'A' and Gp. 'C' Recruitment (Amendment) Rules, 1983.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Roads Development Board Gp. 'A' and Gp. 'C' posts Recruitment Rules, 1981 :—

(1) in rule (I), in sub-rule (i), for the letters “Gp. ‘A’” and “Gp. ‘C’”, the words and letters “Group ‘A’” and “Group ‘C’” shall be substituted ;

(2) in the Schedule;

(a) against item 1 relating to the Superintending Engineer (Civil),—

(i) in column 3, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely:—“Border Roads Engineering Service Group ‘A’ Gazetted Non-Ministerial.”;

(ii) in column 11 for the existing entry the following entry shall be substituted, namely :—“Transfer on deputation : Officers under the Border Roads Organisation holding posts of the rank of :—

(a) (i) Superintending Engineer or equivalent; or (ii) Executive Engineer or equivalent with 5 years service in the grade; and

(b) Possessing degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent.

(Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).”

(b) against item 2 relating to Executive Engineer (Civil)—

(i) in column 3 for the existing entry the following entry shall be substituted, namely:—“Border Roads Engineering Service Group ‘A’ Gazetted Non-Ministerial”;

(ii) in column 11, for the existing entry the following entry shall be substituted namely:—

“Transfer on deputation: Officers under the Border Roads Organisation holding posts of the rank of :—

(a) (i) Executive Engineer or equivalent; or (ii) Assistant Executive Engineer with 5 years service in the grade; (iii) Assistant Engineer with 8 years service in the grade; and

(b) Possessing degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent.

(Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).”

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India Part II Section 3, sub-section (i) under Govt. of India Notification, Ministry of Shipping and Transport, Border Roads Development Board No. F. 1(19)/BRDB/78 dated 15th June, 1981.

[No. F. 1(8)/BRDB/77]

S. S. SAXENA, Under Secy.